

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07112024-258514
SG-DL-E-07112024-258514असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2024/कार्तिक 15, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 242
No. 278]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2024/KARTIKA 15, 1946	[N. C. T. D. No. 242

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2024

फा. सं. डीएचई. 1 (230)/स्था0/भर्ती नियम/2022/3921-29.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा उच्च शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)” के पद हेतु, भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को उच्च शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ‘स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)’, भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से व्यक्तियों की किसी वर्ग या श्रेणी के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पद का नाम	:	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	:	01*(2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह "ग"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/-रुपये)
5.	क्या चयन मैरिट अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष के बीच* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा आदेश के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टीपः — आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। * यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः— 1. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2. हल्के मोटर वाहनों का वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना, 3. मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में छोटी विकृतियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए,

			<p>4. मोटर कार चालक का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव</p> <p><u>वांछनीय:-</u></p> <p>होम गार्ड/नागरिक स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p> <p>टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।</p> <p>टीप 2:- यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं)सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	<p>समूह "ग" विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव /सचिव (ऊर्जा)— अध्यक्ष 2. निदेशक (उच्च शिक्षा)—सदस्य 3. उप-सचिव (वित्त) —सदस्य <p>टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
आर० एलिस वाज़, सचिव (उच्च शिक्षा)

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION**NOTIFICATION**

Delhi, the 4th November, 2024

F. No. DHE.1(230)/Estt./RRs/2022/3921-29.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 840 dated 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rules regulating the method of recruitment to the post of “**Staff Car Driver (Ordinary Grade)**” in Directorate of Higher Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement –

- (i) These rules may be called the Directorate of Higher Education, Government of National Capital Territory of Delhi, ‘Staff Car Driver (Ordinary Grade)’, Recruitment Rules, 2024.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, their classification and pay level in the pay matrix: - The number of said post, their classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.**3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.: -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in the Columns 5 to 13 of the said Schedule.**4. Disqualifications:-** No person:-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that Government may, if satisfied, that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: - Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, may relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.**6. Saving:-** Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.**SCHEDULE**

1	Name of the Post	Staff Car Driver (Ordinary Grade)
2	Number of Posts	01* (2024) *Subject to variation dependent on work- load
3	Classification	General Central Services, Non Ministerial, Non-Gazetted, Group-‘C’
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix.
5	Whether Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6	Age limit for Direct Recruits	Between 18-25 years*. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.

7	Educational & other qualification required for direct recruits	<p>Essential:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pass in 10th Standard. 2. Possession of a Valid Driving License for Motor Cars, 3. Knowledge of Motor Mechanism (the Candidate should be able to remove minor defects in vehicle), 4. Experience of Driving a Motor Car for at least three years. <p>Desirable:</p> <p>Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
8	Whether Age & Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, If any	Two Years
10	Method of recruitment. whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By Direct Recruitment
11	In case of recruitment By Promotion/ Deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not Applicable
12	If a DPC exists, what is its Composition	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Principal Secretary/Secretary (Power) - Chairperson 2. Director (Higher Education) - Member 3. Dy. Secretary (Finance) - Member <p>Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee</p>
13	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making Recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy. (Higher Education)